

अधिसूचना संख्या 197/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1984(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 458 (ई) दिनांक 30 मार्च, 2006 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 16 पर, "सेवासंघ, सार्वजनिक अस्पताल ट्रस्ट, मोडासा - 383315, जिला साबरकांठा, गुजरात" द्वारा "अस्पताल परियोजना" को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2037 (ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 474(ई) दिनांक 16 मार्च, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3065(ई) दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा अनुमानित लागत 50.00 लाख की कोष निधि सहित 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की कोष निधि सहित 2 करोड़ रुपये कर दी गई थी।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के नौ वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह संतुष्ट होने पर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, "अस्पताल परियोजना" योजना या परियोजना को, जो "सेवासंघ सार्वजनिक अस्पताल ट्रस्ट, मोडासा - 383315, जिला साबरकांठा, गुजरात" द्वारा 1 करोड़ रुपये की कोष निधि सहित 2 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है।

■ ■